

# कार्यालय वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)

अरण्य भवन, रामपुर रोड, हल्द्वानी (नैनीताल) दूरमाप /फैक्स : 05946-220003 ई.मेल: cfwkum-forest-uk@nic.in

पत्र संख्या 1647 / 12-1 हल्द्वानी, दिनांक, 24, मई, 2024।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,  
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

**विषय:-** जनपद—नैनीताल के अन्तर्गत रामनगर में रानीखेत रोड के किनारे प्लॉट संख्या 08 एवं 09 में श्री हरीश चन्द्र धिल्डियाल पुत्र श्री महेशानन्द धिल्डियाल की (किसान सेवा केन्द्र) हेतु 0.025 हेतु वन भूमि के लीज नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

**संदर्भ:-** आपके कार्यालय की पत्र संख्या 1849 / 12-1 दिनांक 26.02.2024।

महोदय,

संदर्भित पत्र से विषयांकित प्रकरण में लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण कर प्रभागीय वनाधिकारी रामनगर वन प्रभाग, रामनगर द्वारा अपनी पत्र संख्या 2997 / 12-1 दिनांक 17.05.2024 से विन्दुवार आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है। प्रभागीय वनाधिकारी रामनगर वन प्रभाग, रामनगर से प्राप्त आख्या मय संलग्नकों सहित अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित की जा रही है।  
संलग्न—उपरोक्तानुसार।

भवदीय।

(झा० विनय भार्गव)

वन संरक्षक

पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

पत्रांक 1647 / तददिनांकित।

प्रतिलिपि: प्रभागीय वनाधिकारी रामनगर वन प्रभाग, रामनगर को उनकी पत्र संख्या 2997 / 12-1 दिनांक 17.05.2024 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

(झा० विनय भार्गव)

वन संरक्षक

पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

# कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग

## रामनगर (नैनीताल)

dfo\_ramnagar@rediffmail.com, दूरभाष/फैक्स नं० ०५९४७-२५१३६२

पत्रांक २१९/१२-१

दिनांक,

१७/०२/२०२४

सेवा में,

वन संरक्षक,  
पश्चिमी बृत्त  
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

- विषय:-** जनपद-नैनीताल के अन्तर्गत रामनगर में रानीखेत रोड के किनारे प्लॉट संख्या ०८ एवं ०९ में श्री हरीश चन्द्र घिलियाल पुत्र श्री महेशानन्द घिलियाल की (किसान सेवा केन्द्र) हेतु ०.०२५ हेक्टर वन भूमि के लौज नदीनीकरण के सम्बन्ध में संशोधित आद्या।
- संदर्भ:-** अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक १८४९/१२-१ दिनांक २६.०२.२०२४।

**महोदय,**

उपरोक्त विषयाकित प्रकरण में अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से चाही गयी ३ विन्दुओं पर सूचना संशोधित कर निम्नानुसार आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक प्रेषित की जा रही है-

1. **For what provision lease was sanctioned?:-** उक्त विन्दु के सम्बन्ध में अवगत कराना है की संविव उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ की शा०द०स० १९६३/१४-२-७८/७४ दिनांक ०३.०७.१९७५(संलग्न-१) से श्री हरीश चन्द्र घिलियाल को कृषि सेवा केन्द्र के स्थापनार्थ रामनगर में रानीखेत मोटर मार्ग के किनारे प्लॉट सं० ०८ एवं ०९ की २७०० वर्गफीट वन भूमि ३० वर्षों के लिए लौज पर दिये जाने की स्वीकृति दी गयी थी। परन्तु लौजधारक द्वारा उनके पत्र दिनांक १३.०३.७८ के माध्यम से लौज भूमि पर पेट्रोल पम्प संचालन करने हेतु अनुमति दी गयी। जिसके क्रम में शासनादेश संख्या ६३७४/१४-२-५७८/७४ दिनांक २६.०६.१९७८(संलग्न-२) के माध्यम से संविव, उत्तरप्रदेश शासन, लखनऊ के द्वारा अनापत्ति जारी की गयी। जिसमें उल्लेख किया गया है कि-

“यदि श्री घिलियाल जिलाधिकारी, नैनीताल एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग से “नो आबोवेशन सर्टिफिकेट” प्राप्त कर लेते हैं तो उन्हें कृषि सेवा केन्द्र(Agricultural Implements workshop) के स्थापनार्थ शासनादेश संख्या १९६३/१४-२-७८/७४ दिनांक ०३.०७.१९७५ के अन्तर्गत पद्टे पर स्वीकृत भूमि में उपर्युक्त उपयोग के साथ पेट्रोल पम्प खोले जाने में शासन को कोई आपत्ति नहीं है।”

इस प्रकार लौजधारक को प्रश्नगत लौज भूमि पर कृषि सेवा केन्द्र(Agricultural implements workshop) के साथ पेट्रोल पम्प खोले जाने की सहार्त अनुमति प्रदान की गयी।

2. **Is there any violation of lease deed? लौजधारक द्वारा प्रश्नगत लौज भूमि पर नाव्र पेट्रोल पम्प का संचालन किया जा रहा है, कृषि सेवा केन्द्र का निर्माण नहीं किया गया है।**

नथ की लौजधारक द्वारा अवगत कराया गया है की भारत सरकार द्वारा इन्डीनियरों का स्वरोत्तमार उपलब्ध कराने के लिए कृषि सेवा केन्द्रों का स्थुलवाचा गया था। परन्तु इस स्कीम के असाकल होने के कारणों का जानने के लिए भारत सरकार द्वारा संवित बनाई गयी, जिसने असाकलता के कारणों को देखते हुए इन्हें बीमा यूनिट भानते सरकार द्वारा संवित बनाई गयी, जिसने असाकलता के कारणों को देखते हुए इन्हें बीमा यूनिट भानते सरकार ने इन्हींने लोकनाम से भी इन इन्डीनियरों का नुसार बीमा यूनिट भानते सरकार द्वारा दिया गया था। इन भानते सरकार के द्वारा दिया गया था। (उपर्युक्त संलग्न-३)

3. Lease originally was granted till 2005. Why it has not been renewed after 2005? इस कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखानुसार स्वीकृताकरण द्वारा लीज नवीनीकरण हेतु प्रथम आदेदन वर्ष 2008 में उनके पत्र दिनांक 22.02.2008(संलग्न-4) द्वारा किया गया था। जिसके उपरान्त उनके द्वारा पुनर वक्राचार वर्ष 2013(संलग्न-5) में किया गया, जिसके क्रम में लीजधारक को लीज नवीनीकरण प्रस्ताव गठित कर उल्लंघन कराने के निर्देश दिये गये। दिनांक 05.09.2019 का प्रस्ताव आनलाईन माध्यम से इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। तत्पश्चात समय-समय पर विभिन्न स्तर से लगाई गयी आपत्तियों के निराकरण हेतु पत्रधार अतिथि तक गतिमान है।

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है की शा०स० 1963 / 14-2-78 / 74 दिनांक 03.07.1975 की बिन्दु स० 3 में स्पष्ट किया गया है की—

“ कृपया विलेख का आलेख शासन के अनुमोदनार्थ मेज दें एवं पट्टेदार को निवेश दें कि वे 32 ल० विद्युत्यम् शुल्क के लिये मैं निम्नलिखित शीर्षक के अन्तर्गत द्रेजरी में जमा करके द्रेजरी बालान गवर्नरेन्ट कन्वेंनेंट, ३०५० विधान भवन लखनऊ के पास मैज दें—

“०६५ अन्य सामान्य संवाद—क—अन्य प्रशासन — / — संवाद तथा संवा शुल्क निजी निकायों के लिये काम करने के बास्ते तरकारी कर्मचारियों द्वारा प्राप्त कोस ”

1. उपरोक्त शर्त के अनुपालन में अवगत कराना है की इस कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार पट्टादिलेख तैयार नहीं किया गया है।
2. उक्त लीज वर्ष 2005 तक स्वीकृत थी, जिसके नवीनीकरण हेतु लीजधारक द्वारा वर्ष 2008 में प्रथम पत्राचार किया गया। वर्तमान तक लीज नवीनीकरण नहीं हुआ है। वर्तमान में FCA 1980 के प्रवाधानों के तहत उक्त लीज का नवीनीकरण नहीं हुआ है।
3. उक्त लीज हेतु लीज रेन्ट वर्ष 2005 तक जमा किया गया है। प्रश्नगत लीज के नवीनीकरण हेतु लीज रेन्ट का आगवान जिलाधिकारी नैनीताल के पत्राक ०३/५-स्टाम्प/मूल्यांकन-२०२२-२३(संशोधित दर सूची) दिनांक 18.02.2023(संलग्न-६) के द्वारा निर्धारित वर्तमान बाजार दर के अनुसार निम्न प्रकार किया गया है—

भूमि का नुल्य  $1\text{मी}^2$  के लिए वर्तमान बाजार दर = रु० 47750.00 /  $1\text{मी}^2$

के अनुसार = रु० 47,75,00,000.00 / हेठो

प्रश्नगत लीज नवीनीकरण में प्रस्तावित 0.0250 =  $0.0250 \times \text{रु० } 47,75,00,000.00 / \text{हेठो}$

हेठो भूमि का मूल्य = रु० 1,19,37,500.00 / —

उत्तराखण्ड शासन की शासनादेश संख्या = जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वर्तमान बाजार

1125/X-3-21/02(04)/2018 दिनांक 14.09.2021 दर X लीज अवधि / ९०

के प्रस्तर ३.१.४ के अनुसार प्रीमियम =  $\text{रु० } 1,19,37,500.00 \times 30/90$

= रु० 39,79,167.00 / —

उत्तराखण्ड शासन की शासनादेश संख्या = प्रीमियम का ५%

1125/X-3-21/02(04)/2018 दिनांक 14.09.2021 = रु० 198,958.00 / —

के प्रस्तर ३.१.४ के अनुसार वार्षिक लीज रेन्ट

उपरोक्तानुसार दिनांक 04.07.2005 से आतिथि =  $19 \text{ वर्ष} \times \text{रु० } 198,958.00 / —$

तक = रु० 37,80,202.00 / —

19 वर्षों का बकाय वार्षिक लीज रेन्ट

कुल घनरणि = प्रीमियम + 19 वर्षों का बकाय वार्षिक लीज रेन्ट

= रु० 39,79,167 / — + रु० 37,80,202 / —

= रु० 77,59,369.00

उपरोक्तानुसार प्रश्नगत लीज नवीनीकरण हेतु कुल धनराशि रु० 77,59,369.00 (सतहत्तर लाख  
उनसठ हजार तीन सौ उनहत्तर रुपये मात्र/-) लीज धारक से अपेक्षित है।

अतः सूचना महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

मवदीय,  
(दिग्भ्य नायक)

प्रभागीय वनाधिकारी,

रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

पत्रांक / उक्तादिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर प्रमुख वन सरकार एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

मवदीय  
(दिग्भ्य नायक)

प्रभागीय वनाधिकारी,

रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

प्रतिलिपि १११० सं ० १९६३/१४=२७८/७४ दिनांक ३=७-८-६५ प्रेषण, मर्चिव  
उ०प्र० इ० सन, लाला नगर मेवा मै, जायपुर, प०व० उ०प्र० नैनीताल ।

तिथि :- श्री हरोहर चन्द्र धिल्हयाल जी कृष्ण मेवा चन्द्रस्थापनार्थ  
जिला नैनीताल में दान आयोजित किया जाना ।

उपर्युक्त विधाय पार मापदं पत्र सं २६७३/५=२ (८) दिनांक ३ मार्च  
१९७५ के संदर्भ में मुझे आपसे यह ज्ञाने आ निदेश दुमा है कि आज्ञायन

मर्गदर्शक ने श्री हरोहर चन्द्र धिल्हयाल जी कृष्ण मेवा चन्द्र (Agricultural  
implements workshop) के स्थापनार्थ रामगढ़ — रानोहर मट्टा मार्ग के तिनाँ रोड  
२७०० वर्ग फैट (फ्लॉड नं ८=१४२५ वर्ग फैट स्वर्व फ्लॉट नं ९=१२७५ वर्ग फैट)  
भूमि निर्माणित इलाई घर बट्टे पर दिये जाने के प्रस्तात पा महाराजा  
प्रदान जरुरी है :-

१. पट्टदार ऊक्त भूमि का ७,५०० रुपये मियम स्वर्व ३७५ रुपया किंवित किया जाएगा ।

२. पट्टे को अवधि ३० वर्षों की होगी ।

३. भूमि किस प्रयोजन के लिये ही जा रही है तेवल उसी प्रयोजन के लिये

उपयोग में लाई जायगी । पट्टे दार की पट्टे पर स्वीकृत भूमि को

आवश्यकता नहीं होने पर वह बिना कोई प्रतिक्रिया दिया ही वन नमांग को  
दापस हो जायगी ।

४. पट्टदार ऊक्त भूमि की जिल्हा की किसी दो तर्फ से हस्तान्तरित  
न हो सकेगा ।

५. यदि इस वर्ष की मीठार पट्टदार द्वारा ऊक्त चन्द्रपूर्ण स्वर्व स्थापित  
नहीं किया जाना है तो ऊक्त भूमि बिना कोई प्रतिक्रिया दिये हो इसन  
क्षमा द्वारा बाधित न होना चाहिए ।

६. यदि सहायता आवश्यक हो तो उसे उसी चन्द्रस्थापना देखु दो गई,  
जिन्होंने उसे नहीं देखा है तो उसे सम्म से रद्द माना  
जायेगा ।

७. पट्टे को अवधि को समर्पित पा अथवा इलाई के उर्जापान के पत्ते वस्त्र  
पट्टा रद्द किये जाने पर ऊक्त वन भूमि बिना कोई प्रतिक्रिया दिये हों  
इसका जो वापस हो जायगी स्वर्व पट्टदार की दो माल का सम्म दिया  
जायेगा तिसके मीठार वे अपना सम्मत सामने स्वर्व निर्णय कराये जाएं ।

चल जाना चाहिए । ऊक्त भूमि के बात जी मो सामान औ नाल भूमि के बाबत



जायगा वह सातार ओं संपत्ति हो जायगे जिसके लिए पट्टैदार जिसे प्रतिक्षा का हड्डार न होगा ।

2. प्राप्त धानाशी आय, व्यग्र के प्राप्त शोधक 113. रुप 11 के  
मूल उप शोधक से अन्तर्गत जमा को जाय।

3. उपयोगिता का आवेद्य शासन के अनुमोदनाशी भूज हैं सर्व प्रतिक्रिया की  
निर्देश हैं कि वे 32 रु. तिथोऽकांत शुल्क के समान निम्नलिखित शोधक के  
अन्तर्गत दैजोरो में जमा करके दैजोरो नाला न गवर्नर्मेंट, कॉर्टेयर्स, उपरोक्त  
विवरण लानके पास भूज हैं :-

<sup>4</sup> ०६५ अन्य सामान्य हेतु है - कृत्य ग्रा। मन् ॥-हेतु है तथा

ਪੇਰਾ ਇਲੁਕ ਜਿਲੋ ਨਿਆਯੋ ਤੇ ਲਿਧੇ ਕਾਮ ਕਾਨੇ ਤੇ ਨਾਈ  
ਸ਼ਾਕਾਂ ਰੋ ਅੰਮ੍ਰਿਗ ਪਿਧੋ ਦਵਾ ਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸੋ ॥

4. यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रभास्ति से निर्गत किया जा सकता है जो उनके अंतर्गत सभी योग्य संस्कृत देश- $7=143$  दिनों के  $27=6=75$  द्वारा प्रदृष्ट है।

प्रतिलिपि सच्चनाथं प्रेषितः ।

१. महालेष्ठान, उपरोक्त इलाहावाद ।  
२. विश्व (विश्व चिरांगा) सर्वांगा ।

गांधी

५० सन० प० ० चियानी  
सचिव ।

ज्ञायालम शत्रुघ्नि महाय विषयप्राण, ५० उपर्युक्त नैतोत्तम - ।

पं० ट 320/5=2 रा. ( H.) दिनांक त्रैनी ताल जुलाई 3/ 1975

प्रतिलिपि प्राप्ति से वृत्ति देखा जाता है। एमनार की उनके परम 2500/5=4

दिनांक 7=2=1975 के संदर्भ में प्रसनाश हुआ। आवश्यक आर्थिकों को हेतु प्रेषित।

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਤੈ ਪੈਰਾ 3 ਪਾਰ ਵਿਖੁ ਆਧੁਨਿਕ ਆਈਨਾਂ ਲੋਂ ਭੇਂ।

અગ્રેષીજ

- ୪୮୮

‘३ (देवेन्द्र प्रसाट जैशी )  
सतीन महिय पाण यपा त, कु० उ०

३८५

मा. १६४ श्रीलिंग ५ दिन १९३८-७५

प्रतिलिपि सासनादेश संख्या 6371/44-2-578/74, लघुनड, दिनांक, जून 26,  
1978 वन अनुभाग -2, प्रैषक रन ०५०० त्रिपाटी, सवित्र, उत्तर प्रदेश—  
शासन / सेवा मेर अर्थपाल, परिवर्षो बृत्त, उत्तर प्रदेश, नैनोताल।

*P.W.D.*  
विषय:- श्रो डोसा कन्द खिल्डियाल के कृषि सेवा केन्द्र स्थापनार्थ  
जिला नैनोताल मेर वन भूमि दिया जाना।

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 6372/5-2 रा०, दिनांक  
जून १६, १९७८ के सन्दर्भ मेर यह कहने का निदेश हुआ है कि यदि श्रो  
खिल्डियाल जिलापिकारो, नैनोताल एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग से " नौ  
आत्मेक्षन सर्टीफिकेट " प्राप्त कर लेते हैं तो उन्हें स्थापनार्थ शासनादेश संख्या  
362 S-4 (शिश नन्दा बहुमत)  
1517/A १९६३/४४-२-५७८/८४, दिनांक जुलाई ३, १९७५ के अन्तर्गत पढ़ते पर  
स्वेच्छा भूमि मेर उपर्युक्त उपयोग के साथ पैदोत पर्य लौटे जाने मेर शासन को कोई  
आपहित नहो है।

वर्धांतम् अर्थपाल, परिवर्षो बृत्त, उत्तर-प्रदेश, नैनोताल।

पत्र संख्या 1773८८ / ८२८। दिनांक : नैनोताल, जुलाई ७८  
प्रतिलिपि प्रगाहोव वनाधिकारो राजनगर को इस कार्यालय के  
पूर्व ठाक्कर संख्या 6378/5-2 (रा०) ॥ दिनांक १६-६-७८ के क्रम मेर सूचनार्थ  
एवं उस शासनादेशानुसार अग्रिम कार्यवाहो करने हेतु प्रेषित।

वि/४०

(अरुणबो माधुर)  
अर्थपाल, परिवर्षो बृत्त, उत्तर-प्रदेश,  
नैनोताल।

विषय:- धूत्रोत तथा डीजिलपम्प लौटने की  
अनुमति देने द्वारा।

प्रधान:- डॉ कामलाल श्री पत्र संख्या ३८४३/५-४  
१५-५-७८।

विषय:- धूत्रोत तथा डीजिलपम्प लौटने की  
अनुमति देने द्वारा। डॉ कामलाल  
कामलाल की जा दियती है।

प्रधान

(S)  
10-81  
NICK  
⑨ Pages

REVISED DRAFT

SCHEME

FOR

REHABILITATION

OF

WICK AERO SERVICE NUMBER

(i)

UNSTARRED QUESTION NO. 1238

TO BE ANSWERED ON THE 1ST MARCH, 1982

DECLINE OF AGRO-SERVICE CENTRES

Q. 1238. SHRI B.D. ASHWINI

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state

- (a) whether it is estimated a large number of agro-service centres in the country are in financial difficulty; if so, more than 500 such centres have been closed down will it be possible to bring the verge of bankruptcy; and  
(b) if so, details thereof, giving the reasons therefor and the steps taken by Government to improve the situation?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE

(SIRI R.V. SANKINATHAN)

(a) As per the survey conducted by the Central Govt. Training Centres at Budhni and Hissar in the year 1977 covering the States of Assam, Bihar, Haryana, J & K, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh, West Bengal, Madhya Pradesh, Tamil Nadu, Kerala and Karnataka, 47.5% of the agro-service centres were operating on profit and 25% alone as not doing well. Subsequent survey carried out by the Tractor Training Centre, Hissar in 1978 revealed that 67.5 % agro-service centres on an average were running on profit whereas 19.8% were working on loss. The remaining 12.7% did not report their financial benefits. As on 21st March, 1981 506 out of 3206 centres (i.e. 15.8%) have closed down. The Government, however, have no information to lead to the conclusion that many of these centres are on the verge of bankruptcy.

(b) Details:- State-wise position of break-up of 506 centres reported to have been closed is given in annexure.

Reasons for the failure :-

As per the survey carried out in 1977 the reasons for failure or closing down of some of these centres was low work turn-over because of their being engaged only in the activity of custom hiring in tractors accompanied by competition from tractor-owning farmers, escalation in the operational cost of these machines due to hike in the prices of diesel and other lubricants and other raw materials, high cost of these machines, escalation in the cost of repair and maintenance, non-maintenance of proper records about their working, lack of requisite efforts on the part of entrepreneurs to improve their performance etc.

Steps taken by the Government to improve the situation :-

The steps taken by the Government to improve performance and financial viability of these centres are details below:-

- i) These agro-service centres were given priority allotment of tractors both indigenous and imported.
- ii) The RBI on our initiative have extended the benefits of concessional rate of interest to these agro-service centres on par with small scale industries and credit guarantee cover.

Contd. P.O.

iii) At various stages seminars and meetings were held to review the performance of these centres where it was advised to diversify their business on the basis of local demands and not confine themselves to selling of contractors alone.

iv) The Ministry of Finance advised the RBI to instruct the nationalised banks to reschedule the repayment of the instalments of bank loans taken by them whenever necessary.

v) On transfer of the scheme to the States, the Ministers of the States were directed to honour the commitments of transfer and to extend such other necessary help which was required for running them on viable basis.

vi) Minister of State for Agriculture addressed the Ministers concerned to take such steps as would be necessary for strengthening these centres, including expeditious payment of the claims of these agro-service entrepreneurs, as well as subsidy.

vii) Minister(A, RER CS) once again addressed the Chief Ministers of the States to take action to disburse the advances outstanding of these entrepreneurs urgently, to route the distribution of agricultural inputs in the areas where these centres are functioning through them to help them in getting customizing and adaptation in the various schemes implemented by the State Govt. and also in their various programmes including programmes of rural electrification and command area development. Simultaneously he addressed the Union Finance Minister of instruct the Commercial Banks to waive interest charges on loans advanced to these centres and to postpone the payment of principle amount. Union Minister of Petroleum, Chemicals and Fertilizers was also addressed by him to consider the case of these centres for allotment of a fair share in oil, petrol and petro-based lubricants.

Note:- AT THE SUPREME COURT: The Agriculturists Association moved in the Parliament, but not in the Supreme Court to file a writ. It is said that the Government may not submit a report to the SC and this means that our case may be posted for transfer to the SC. The latest counter by SSI in Maharashtra will be the most formidable one against us. Sri Nariman has been asked to file such counters even in previous writs. We have been asked for Petitioner-wise/ Writ-wise/ State-wise. So please send your latest full information.

INDEX

## Page Number

1. Name of the Scheme	:	1
2. Objective of the Scheme	:	1
3. Eligibility Criteria	:	1
4. Components of the Scheme	:	
4.1 Reliefs and concessions which can be extended by banks/financial institutions to non viable Agro Service Centres which can not be Rehabilitated.	:	2
4.2 Reliefs and concessions which can be extended by banks/financial institutions to potentially viable Agro Service Centres which can be rehabilitated.	:	
4.3 Other assistance to be extended to identified sick agro service centres	:	5
5. Implementation procedure	:	7

1. Name of the Scheme : Rehabilitation of Sick Agro Service Centres (ASCs).
2. Objective of the Scheme : The Scheme aims at rehabilitation/revival of the Identified sick Agro Service Centres set up under the Centrally Sponsored Agro Service Centres Scheme, which was operated through Agro Industries Corporation at the State Level during the period 1971 to 1979 and later transferred to State sector on 1.4.79 as per decision of National Development Council.
3. Eligibility Criteria
- 3.1 The Scheme will be confined to ASCs which were opened under the Centrally Sponsored Agro Service Centres Scheme launched in Dec., 1971 and later transferred to State Sector on 1.4.79 as per decision of National Development Council.
  - 3.2 ASCs whose owners have not migrated out of the country.
  - 3.3 The agro-entrepreneurs who have taken up alternative employment, may also be considered for assistance, provided the units are found viable and the entrepreneurs agree to run the units themselves.
  - 3.4 The agro-entrepreneurs who have sold their assets will not be considered eligible for any assistance under the scheme.
  - 3.5 Agro-Entrepreneurs who have been wilfully defaulter in the past will not be eligible for any assistance under the Scheme.
4. Components of the Scheme
- Under the Scheme, the agro-entrepreneurs will be provided reliefs and concessions on the following pattern.
4. Action to be taken in respect of non-viable Agro Services which require rehabilitation
- 4.1 Bank will consider each case on merits and the normal steps for the recovery of bank dues will be initiated.

(4)

- 2 -

4.2 Reliefs and concessions which can be extended by Banks/financial Institutions to potentially viable Agro Service Centres which can be rehabilitated.

4.2.1 Fund interest and funded interest

- 1 If penal rates of interest or charges have been charged such charges should be waived from the accounting year of the year in which it started incurring cash losses continuously. After this is done, the unpaid interest on term loans and cash credit during this period should be segregated from the total liability and funded. If interest may be charged on funded interest and repayment on such funded interest shall be payable in 5 years from the date of commencement of implementation of the rehabilitation programme.

4.2.2 Unadjusted interest dues

- 2 Unadjusted interest dues such as interest charged between the date upto which rehabilitation package was prepared and the date from which actually implemented, may also be funded on the same terms at 4.2.1 above.

4.2.3 Term loans

The rate of interest on term loans may be reduced, where considered necessary, by not more than three percent, the reduced rate, in no case being less than the rate of interest charged under Integrated Rural Development Programme (IRDP).

4.2.4 Principal dues

- After the unadjusted interest portion of the cash credit account is written off as indicated in 4.2.1 and 4.2.2 above, the balance representing principal dues may be

(2)

treated as irregular to the extent it exceeds drawing power. This amount may be funded as Working Capital Term Loan (WCTL) with a ready exit schedule not exceeding 5 years. Interest may be charged on this funded item at 10 percent per annum.

#### 4.1.5 Cash Losses

Cash losses are likely to be incurred in the initial stages of the rehabilitation programme till the unit reaches the break even level. Such cash losses excluding interest as may be incurred during the nursing programme may also be financed by the bank or the financial institution, if only one of them is the financier. But if both are involved in the rehabilitation package, the financial institution concerned should finance such cash losses. Interest may be charged on the funded amount at the rates prescribed by IDBI under its scheme for rehabilitation assistance.

#### 4.2.6 Working Capital

Non-based working capital should be sanctioned to the unit to enable it to carry on its operations, with interest at the minimum of the band of the prescribed interest rates during the rehabilitation period. Where the minimum of the band exceeds 15% (as for instance in the case of working capital assistance in excess of Rs.25 lakhs, where it is 16.5%), the rate may be fixed at 15% per annum.

#### 4.2.7 Contingency loan assistance

For meeting escalations in capital expenditure to be incurred under the rehabilitation programme, Commercial Financial Institutions may provide, where considered necessary, appropriate additional financial assistance upto 15% of the estimated cost of rehabilitation by way of contingency loan assistance. Interest on this contingency assistance may be charged at the concessional rate of interest for working capital assistance.

#### 4.2.8 Funds for start-up expenses and for working capital

There may be a need to provide the unit under rehabilitation with funds for start-up expenses (including payment of previous creditors or margin).

money for working capital in the form of long-term loans. Where a financial institution is not involved, banks may provide the loan for start-up expenses, while margin money assistance should be provided by State Government where it is operable or arrangements can be made. The term loan from banks will carry the same rates as the existing term loans.

#### 4.2.9 Guarantee fee

The guarantee fee payable to Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) in respect of sick agro-service Centres units should be borne by the Banks/financial Institutions during the period of rehabilitation programme.

#### 4.3 Other assistance to be extended to identified sick agro service centres.

State Governments will consider requirements of agro-entrepreneurs on case-to-case basis, for allotment of suitable accommodation at nominal charge, if such a measure has been recommended by District Level Appraisal Committee in the rehabilitation proposal of the sick agro-service centre concerned.

#### 4.3.2 Agriculture Inputs distribution

State Governments and State Agro-Industries Corporations will accord priority to the identified sick agro service centres in matters of giving incentives for input distribution, if such measure, has been recommended by the District Level Appraisal Committee in the rehabilitation proposal of the agro service centre concerned. States may consider adopting the Maharashtra pattern in this regard. States may also designate AECs as approved outlets for items in which cooperative do not deal in.

contd., 5/-

(1)

5

5.5 Pending claims of interest subsidy

State Governments will be requested to process and make payment of pending interest subsidy claims, if any, of the agro entrepreneurs in accordance with the provisions of the agro service centres scheme transferred to States w.e.f. 1.4.79 in pursuance to the decision of National Development Council.

Implementation procedure.

1

The State AICs will be responsible for identification of eligible agro service centres as per the eligibility criterial as in para 3 above. After the approval of the rehabilitation scheme by Supreme Court of India, the Agro-Entrepreneurs shall submit their applications alongwith rehabilitation proposal for consideration to the concern State Agro Industries Corporation within 90 days of the order of the Supreme Court. The State Agro Industries Corporation will scrutinise the applications received, within a period of 30 days from the date of its receipt and forward the same to the District Level Appraisal Committee(DLAC).

2

Rehabilitation proposal as in 5.1 above will be considered by the District Level Appraisal Committee constituted as under

- (i) Distt. Collector -Chairman.
- (ii) One representative of Lead Bank. -Member
- (iii) One representative of Creditor Bank. -Member
- (iv) Representative of the Managing Director of State Agro Industries Corporation. -Member-Secretary.

The proposals for rehabilitation considered viable will be forwarded by the DLAC to the concerned bank for further action. Proposals

(8)

- 6 -

for rehabilitation not considered viable shall be rejected by the DILG and the dues of the Bank/Financial Institution shall be recovered in such instalments as may be decided by the Bank/Financial Institution on merits of each case.

The DILG will also review the progress of each case on quarterly basis and submit the report to the Chairman of the Task Force.

For monitoring and periodical review of the progress and removal of constraints etc, a Task Force will be set up in each of the concerned State as under:-

- i) Secretary(Agri.) : Chairman
- ii) One Representative : Member of ICIDB
- iii) One representative : Member of Reserve Bank of India
- iv) One representative : Member of NABARD
- v) One representative : Member of small Industries Service Institute
- vi) Two representatives : Member of agro-enterprises
- vii) Managing Director of :Member State Agro-Industrial Corporations, Secretary

The representative of the agro-enterprises will be selected in a meeting of all entrepreneurs, linked under the Small Scale Sector Scheme of Agro Service Centres, held by the State Agro Industries Corporation under the Chairmanship of the Managing Director of the Corporation.

contd... 2/-

:-7:-

The Task Force would periodically review and monitor the progress of the scheme and submit a quarterly report to the Government of India in the Ministry of Agriculture.

5.4

A National Level Committee to review and monitor the progress of rehabilitation scheme shall be constituted. This Committee shall consist of representatives of all concerned Ministries of Government of India, RBI, IBA, all concerned Commercial Banks, State Governments, SAICs and two representatives of National Federation of Agro Entrepreneurs.

The delay in implementation of the Scheme will be reviewed by District Level Committee periodically. One of the factors contributing to such delays could be time taken for obtaining clearance to the reliefs and concessions. The banks and the financial institutions will delegate sufficient powers to senior officers at various levels such as district, divisional, regional, zonal and also at head office to sanction the banks or the financial institutions commitment to its share in the rehabilitation proposal drawn up in conformity with the Scheme approved by the Supreme Court of India and the prescribed guidelines/Instructions issued by the Reserve Bank of India from time to time.



# AGRO SERVICES & FERTILIZING CONTROL

ORIENT - INDIAN OIL CORPORATION LTD.  
RAMNAGAR ROAD, RAMNAGAR (HARIDWAR) U.P. (DEHRADUN) KASHI 25523 OFF 25584

No. ....

Date 22-01-1958

संग्रह सं.

कालीगंग उत्तराखण्ड  
दमनदार नम अधिकारी विभाग

लिखा - प्रश्न संख्या ४०१० के संबंध में निम्नलिखित वार्ताएँ दाखिल हैं।

महाराजा

लिखा इस प्रकार है कि यदि का प्रश्न संख्या ४०१० का तीव्र  
भित्तिकोषलता होना है। तो आप इस भित्तिकोषलता करने की अधीक्षण कार्रवाहि गर्ने की  
आवश्यकता है।

प्रश्न संख्या ४०१०

प्रश्न संख्या ४०१०

*M*

महाराजा

*Ag-13/1/1958*

(हिन्दी चन्द्र शिल्पिकाल)

एयो राजिस एवं लितिन

लैफल अ-४८

राजीवेत राजसेवानकाल  
(नेनीताल)

## SERVICES & FILLING CENTRE

INDIAN OIL CORPORATION LTD.  
NIKHET ROAD, RAMNAGAR-244715 (NAITAL)  
(05947) OFF.-251484, RESI.-251523



Ed. No. \_\_\_\_\_

Date.....

To,  
The DFO, Rambnagar  
Uttarakhand

Date: 5/25/2013

Subject: Renewal of the lease for plot no 3 & 9, on Ranikhet Road, Ramnagar, on  
name of Harish Chandra Ghildiyal

Dear Sir,

This is to request you to renew the lease of plot no 8 & 9 on Ranikhet Road which was allotted to Harish Chandra Ghildiyal S/o Late Shri M N Ghildiyal. This plot has office of Agarsh Cooperative transport on North, Forest compound on west and Ranikhet Road on East; since the allotment of lease, Agro Services & Filling Center (petrol pump) has been operating on this plot.

I would request you to kindly renew the lease of plot nos 8 & 9 to Harish Chandra Ghildyal to whom this plot was originally allotted.

### Thanks and Regards

Harish Chandra Ghildiyal  
Prop Agro Services and Filling Center  
Ranikhet Road  
Ramnagar (n)  
Uttarakhand

*Chamomile*

~~100-111-111~~  
4  
18/10/2013

काले दिन

25

८५ श्रीराम नवीन देवी राम

卷之三

12045 68713 1965. 1967. Entomology

— अपने दोस्रे वर्ष की शुरूआत में उन्होंने एक बड़ा विनायक चतुर्दशी का उत्सव आयोजित किया।

$\pi \approx 3.14159$

### कार्यालय जिलाधिकारी / कलेक्टर नैनीताल

दिनांक १६ फरवरी २०२३

पत्रांक १३ / ५-स्टाम्प / मूल्यांकन-१-२०२२-२३ (संशोधित दर सूची)

पत्रांक ०३/५-स्टाम्प/मूल्यांकन-२०२२-२३ संस्कारण दर सूची  
कन्द्रीय मूल्यांकन समिति की रारतुवि के पश्चात शारन के पत्र संख्या ६१५/२०२३/XXVII(9)/स्टाम्प ८०/२००९ दिनांक १५ फरवरी २०२३ के होठ प्राप्त कन्द्रीय मूल्यांकन समिति से अनुमोदित मूल्यांकन सूची दिनांक १३ जनवरी २०२० से प्रभावी दर सूची को संसाधित गिया जाती है जनपद नेतृत्व से संबधित केंद्रीय मूल्यांकन समिति से अनुमोदित मूल्यांकन सूची दिनांक १३ जनवरी २०२० से प्रभावी दर सूची को संसाधित गिया जाती है ६ फरवरी २०२३ से प्रभावी होगी।

४५  
(धीराज गव्याल)  
जिंलाधिकारी  
नैनीताल

**जनपद नैनीताल, तहसील रामनगर के प्रमुख मार्गों पर स्थित क्षेत्र की राकिल दरें**

क्रम संख्या	प्रमुख मार्ग/ मोहल्ला/ राजमार्ग क्षेत्र की दरें	प्रमुख मार्ग / मोहल्ला / राजमार्ग क्षेत्र के नाम	स्थान दर (Base Rate)								
			स्थित मूली की दर (प्रति फीटप्रयत्न लागत का है)		अक्षयि मूली की दर (प्रति पर्शिटर ३० ग्रे)		महानीती व जावासीय मार्ग वे विधाया जावासीय क्षेत्र (प्रति फीटप्रयत्न क्षेत्र का है)		महानीतीक चावन की दर (प्रति पर्शिटर ३० ग्रे क्षेत्र का है )		
			० से २०० फीटर तक	० से ६० फीटर तक	६० से १०० फीटर तक	१०० से २०० फीटर तक	इतने तक कार्यालय	अन्य कार्यालय प्रतिक्षेपण	प्रथम श्रेणी प्रवासी	द्वितीय श्रेणी टिन्हील	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1. रामनगर-रानीखेत मुख्य मोटर मार्ग पैठपड़ाव से मोहान तक (वाया डिकूली)</b>											
A			1. मोहल्ला रानीखेत रोड (वार्ड नं. 20)	980	21000	16000	33000	54600	51600	12000	7000
			1. लखनपुर- (वार्ड नं. 04).	980	17500	14000	29500	50750	47750	12000	7000
A (I)			2. निरपदाव (वार्ड नं. 20)	980	17500	14000	29500	50750	47750	12000	7000
			3. देवा रोड (वार्ड नं. 03)	980	17500	14000	29500	50750	47750	12000	7000
A (II)			1. दगापुरी (वार्ड नं. 02)	980	12000	10500	24000	41700	37200	12000	7000
			2. डिकूली	280	12000	10500	24000	44700	41700	12000	7000
			3. लदूवार्डी	280	12000	10500	24000	41700	41700	12000	7000
			4. योहान	280	12000	10500	24000	44700	41700	12000	7000
			5. लदूवार्डी	280	12000	10500	24000	44700	41700	12000	7000
			6. अमरपुर	280	12000	10500	24000	44700	41700	12000	7000
2	B		<b>रामनगर-काशीपुर मुख्य मोटर मार्ग काशीपुर रोड से भवानी गंज तक</b>								
			1. काशीपुर रोड (वार्ड नं. 13)	1000	21000	16000	33000	54600	51600	12000	7000
			2. जसपुरीया लाइन (वार्ड नं. 19)	1000	21000	16000	33000	54600	51600	12000	7000
3	C		<b>रामनगर नगर पालिका क्षेत्र/वार्ड करोपा लाइन से ऊंटपड़ाव तक वाया रानीखेत रोड</b>								
			1. करोपा लाइन (वार्ड नं. 19)	1000	21000	16000	33000	54600	51600	12000	7000
			2. ज्वाला लाइन (वार्ड नं. 19)	1000	21000	16000	33000	54600	51600	12000	7000
			3. नवानी लाइन (वार्ड नं. 19)	1000	21000	16000	33000	54600	51600	12000	7000
			4. ज्वाला लाइन (वार्ड नं. 19)	1000	21000	16000	33000	54600	51600	12000	7000
			5. कोशी रोड (वार्ड नं. 19)	1000	21000	16000	33000	54600	51600	12000	7000

१५  
८८